



मोटापा एक पुरानी बीमारी है जो शरीर में वसा के अतिरिक्त राशि से परिभ्रषित होती है। शरीर में ऊर्जा के भंडारण, गर्भ मोर्चे, सदमे अवशोषण और अन्य कार्य के लिए वसा की एक निश्चित मात्रा आवश्यक है।

मोटापा एक गंभीर समस्या है और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मोटापे के कारण प्रतिवर्ष लगभग 112000 लोगों की मृत्यु होती है और यह बढ़ती ही जा रही है। इसके कारण पुरानी बीमारियों के बढ़ने का खतरा बन रहा है।

#### विशेष लाभ व गुण :-

- उच्च रक्तचाप
- उच्च कॉलैस्ट्रोल
- स्ट्रोक
- दिल का दौरा
- कंजेस्टिव दिल विफलता
- कैंसर
- गालस्टोन

तेजी से वसा कम करना  
ऊर्जा बूस्टर  
अपाचय को बढ़ाना देने  
भूख को कम करना

YOU ARE NOT  
**TOO FAT**



WORK  
IN  
PROGRESS



*Nutritional Shake*

